

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 149]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 12 मार्च 2022 — फाल्गुन 21, शक 1943

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 10 मार्च 2022

आदेश

क्रमांक 2504/200/21-ब(एक)/छ.ग./2021.— राज्य शासन, एतद्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 सहपठित छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 5(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्रीमती ऋचा यादव, (Smt. Richa Yadav) पति श्री सौरभ जैन, (अनारक्षित-पी.एच.-ओ.एल., मेरिट क्र.-32) को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2006 के नियम 3(1)(क) के अंतर्गत वेतनमान 27,700-770-33,090-920-40,450-1,080-44,770 (सातवां केन्द्रीय वेतन आयोग वेतन मेट्रीक्स-10 के समकक्ष) में अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परीक्षा अवधि पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार पाण्डेय, अतिरिक्त सचिव.